



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 19, 2004/पौष 29, 1925

No. 14]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 19, 2004/PAUSA 29, 1925

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2004

सं. 21/4/2004/टी.—पंजाब के भटिंडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचित सदस्य श्री भान सिंह भौरा का 3 जनवरी, 2004 को नई दिल्ली में निधन हो गया है और परिणामतः इस तारीख से लोक सभा में उनका स्थान रिक्त हो गया है।

जी.सी. मलहोत्रा, महासचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2004

No. 21/4/2004/T.—Shri Bhan Singh Bhaura, an elected Member of Lok Sabha from Bhatinda Parliamentary Constituency of Punjab passed away at New Delhi on 3 January, 2004 and consequently his seat in the Lok Sabha has become vacant with effect from that date.

G. C. MALHOTRA, Secy.-Genl.